



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

1 फाल्गुन 1930 (श10)
(सं0 पटना 40) पटना, शुक्रवार, 20 फरवरी 2009

संसदीय कार्य विभाग

अधिसूचना

5 फरवरी 2009

सं0 सं0का0/विविध-311/06-1234-चतुर्दश बिहार विधान सभा के गठन के परिणामस्वरूप विभाग के कार्यों के सम्पादन में सुझाव देने के लिए विभागीय अधिसूचना संख्या-1021 दिनांक 26 अक्टूबर, 2006 के द्वारा संसदीय कार्य विभाग के लिए "विभागीय परामर्शदातृ समिति" का गठन निम्नलिखित रूप से किया गया था :-

क्रम सं0	नाम	पदनाम
1.	श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह, मंत्री, संसदीय कार्य विभाग	अध्यक्ष
2.	श्री राजेश प्रसाद सिंह, सदस्य विधान सभा	सदस्य
3.	श्री रामा किशोर सिंह, "	"
4.	श्री राम निवास प्रसाद, "	"
5.	श्री सैयद रुकनुदीन, "	"
6.	श्री हरिनारायण सिंह, "	"
7.	श्री सत्यनारायण सिंह, "	"
8.	श्री आजाद गौधी, सदस्य विधान परिषद्	"
9.	डा0 श्रीमती ज्योति, "	"
10.	प्रधान सचिव/सचिव, संसदीय कार्य विभाग	सदस्य सचिव

उक्त अधिसूचना में निम्न रूप से आंशिक भेदन किया जाता है :-

क्रम सं0-6 श्री हरिनारायण सिंह को राज्य मंत्रिपरिषद् में कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल कर लिया गया है। जिसकारण वे अपने अधीन के विभाग की विभागीय परामर्शदातृ समिति का पदेन अध्यक्ष हो गये। अतः, उनके स्थान पर श्री विश्वमोहन भारती, सदस्य बिहार विधान सभा को नामित किया जाता है।

क्रम सं०-8 श्री आजाद गँधी दिनांक 07.05.2008 से बिहार विधान परिषद् का सदस्य नहीं रहे। अतः, उनके स्थान पर इस अधिसूचना के निर्गत होने की तिथि से श्री नीरज कुमार, सदस्य, बिहार विधान परिषद् को नामित किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
अरुण चन्द्र सिंह,
सरकार के अपर सचिव।

18 फरवरी 2009

सं०-सं०का०१/विरोधी दल-०९/२००५-१२७६-बिहार विधान परिषद् की अधिसूचना संख्या-वि०प०अ०प्र०-२१३/२००५- ८७(१) वि०प०, दिनांक १३.०१.२००९ के द्वारा ज्ञात होता है कि माननीय सभापति, बिहार विधान परिषद् ने राष्ट्रीय जनता दल को बिहार विधान परिषद् में मुख्य विपक्षी दल की मान्यता प्रदान करते हुए माननीय सदस्य श्री बादशाह प्रसाद आजाद को अधिसूचना की तिथि से मुख्य सचेतक, मुख्य विपक्षी दल के रूप में स्वीकृति प्रदान की है।

बिहार विधान मण्डल नेता विरोधी दल, संसदीय सचिव, सचेतक और सदन नेता (वेतन भत्ते) नियमावली, २००६ के नियम-३(ख) के आलोक में श्री बादशाह प्रसाद आजाद को दिनांक १३.०१.२००९ के प्रभाव से राज्य मंत्री की दर्जा, राज्य मंत्री के समान वेतन, भत्ते एवं अन्य सुविधाएं अनुमान्य की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
अरुण चन्द्र सिंह,
सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) ४०-५७१+१००-डी०टी०पी०।